

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट – दिनांक 31.01.2021

थाना कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

**अवैध शराब का निष्कर्षण कर, कारोबार करने वाले अभियुक्त पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार,
अवैध असलहा, अवैध शराब भट्टी व उपकरण बरामद कर, 1500 ली0 लहन नष्ट किये गये ।**

श्री.एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार श्री संजय कुमार, पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण व श्री प्रवीण कुमार क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में अवैध शराब के निष्कर्षण/तस्करी की रोकथाम व अवैध शराब का कारोबार करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे प्रभावी अभियान में थाना कोतवाली पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुयी ।

दिनांक 30.01.2021 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गर्ग नदी किनारे ककरा खुर्द के पास कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध शराब का निष्कर्षण करने की जानकारी प्राप्त हुई। सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा छापेमारी की गयी तो पुलिस टीम पर अभियुक्तों द्वारा जान से मारने की नियत से फायर किया गया । जिसमें पुलिस टीम बाल बाल बची । पुलिस टीम द्वारा अपने आप को बचाते हुये घेराबन्दी कर मौके से 01 अभियुक्त बबलू को गिरफ्तार किया गया तथा अन्य 04 अभियुक्त रात में कोहरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे ।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा 315 बोर मय एक खोखा कारतूस 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये तथा मौके से 40 लीटर अवैध देशी शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किये गये । भट्टी व 1500 ली0 लहन नष्ट किया गया । इस सम्बन्ध में थाना पर मु0अ0सं0 50/21 धारा 147/148/149/307 भादवि पुलिस मुठभेड व 60(2) आबाकारी अधि0 एवं मु0अ0सं0 51/21 धारा 3/25/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1-बबलू पुत्र ओमप्रकाश नि0 अजीजगंज थाना कोतवाली शाहजहाँपुर ।

फरार अभियुक्त का विवरण:-

1-चन्दन पुत्र ओमप्रकाश नि0 अजीजगंज थाना कोतवाली शाहजहाँपुर ।

2-सूरज पुत्र ओमप्रकाश नि0 अजीजगंज थाना कोतवाली शाहजहाँपुर ।

3-मिथलेश पत्नी ओमप्रकाश नि0 अजीजगंज थाना कोतवाली शाहजहाँपुर ।

4-खुशबु पत्नी चन्दन नि0 अजीजगंज थाना कोतवाली शाहजहाँपुर ।

बरामदगी का विवरण:-

1-40 लीटर अवैध शराब

2-एक तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस

3-शराब बनाने का उपकरण 1500

पुलिस टीम का विवरण:-

उ0नि0 श्री नरेश चन्द्र थाना कोतवाली शाह0 मय हमराह टीम